

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-34

दिनांक 09.11.2022

स्वाट/सर्विलांस व थाना जैदपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 ट्रक लूटों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट का मोबाइल, दो अदद बैट्री व रुपये बरामद-

वादी कौशलेन्द्र कुमार पुत्र राम भरोसे सिंह निवासी ग्राम नगला केवल थाना एका जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना जैदपुर पर सूचना दी गई कि दिनांक-05.11.2022 को ट्रक संख्या UP 16 HT 6483 में गता लोडकर पुरनिया बिहार से कानपुर जा रहा था। रात्रि करीब 10 बजे अहमदपुर टोल प्लाजा के पास गाड़ी का शीशा साफ करते समय 03 अज्ञात व्यक्ति आये और तमंचे के बट से मारकर मोबाइल व नकद रुपये छीन लिए तथा ट्रक से धक्का देकर उतार दिया और ट्रक लेकर चले गये। खोज बीन के बाद गाड़ी पुरानी बाईपास मंजीठा के पास खड़ी मिली । इस सूचना पर थाना जैदपुर पर मु0अ0सं0-509/2022 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया।

घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना जैदपुर पुलिस टीमों को लगाया गया। स्वाट/सर्विलांस व थाना जैदपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस व डिजिटल डेटा के आधार पर आज दिनांक 09.11.2022 को अभियुक्तगण 1. विक्रम रावत पुत्र लक्ष्मण रावत निवासी ढिलवासी थाना इंटौजा जनपद लखनऊ हाल पता छत्रपाल मजरे दुल्हीपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी, 2. सुभाष कनौजिया पुत्र रामसहारे निवासी छत्रपाल मजरे दुल्हीपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को भनौली नहर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल, दो अदद बैट्री व 1000/-रुपये नकद बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने अन्य सहयोगी जशवन्त सिंह उर्फ बावी व विशाल के साथ आर्थिकतंगी को दूर करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 05.11.2022 की रात्रि इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प, निकट सिंह ढाबा लक्षबर बजहा, सफदरगंज से ट्रक ड्राइवर को बन्धक बनाकर ट्रक, रुपये, मोबाइल, जग, पाना व दो अदद बैट्री लूट कर ट्रक ड्राइवर को रास्ते में ही उतार दिया व पकड़े जाने के डर से ट्रक को सतरिख नाका बाईपास के पास छोड़कर भाग गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विक्रम रावत पुत्र लक्ष्मण रावत निवासी ढिलवासी (अमानीगंज) थाना इंटौजा जनपद लखनऊ हाल पता छत्रपाल मजरे दुल्हीपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
2. सुभाष कनौजिया पुत्र रामसहारे निवासी छत्रपाल मजरे दुल्हीपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

मोबाइल, दो अदद बैट्री व 1000/-रुपये (लूट से सम्बन्धित)

आपराधिक इतिहास-

विक्रम रावत पुत्र लक्ष्मण रावत निवासी ढिलवासी (अमानीगंज) थाना इंटौजा जनपद लखनऊ हाल पता छत्रपाल मजरे दुल्हीपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी-

1. मु0अ0सं0 479/17 धारा 379/411 भादवि थाना इंटौजा जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 524/17 धारा 411/413 भादवि थाना इंटौजा जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 221/19 धारा 41/411/413/420 भादवि थाना इंटौजा जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 371/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इंटौजा जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 164/19 धारा 379/411 भादवि थाना बीकेटी जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 201/17 धारा 379/411/420/467/468 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ

पुलिस टीम-

स्वाट टीम-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 संजीव प्रकाश सिंह स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
3. हे0का0 अभिमन्यु सिंह, हे0का0 तनवीर अहमद का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 हरिकान्त यादव
4. का0 नितिन कुमार, का0 अंकित तोमर, का0 अभिषेक राजवंशी, का0 चा0 सुभान अली

सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री अंकित त्रिपाठी प्रभारी मीडिया सेल/सर्विलांस टीम जनपद बाराबंकी
2. हे0का0 जितेंद्र वर्मा, हे0का0 मजहर अहमद, का0 अनुज कुमार
3. का0 सुधाकर सिंह भदौरिया, का0 प्रवीण शुक्ला, का0 दिव्यांश यादव, का0 शैलेन्द्र कुमार

थाना जैदपुर-

1. प्र0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
2. अति0प्र0नि0 श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
3. उ0नि0 श्री उमेश यादव थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
4. हे0का0 सूबेदार यादव, का0 शैलेन्द्र सिंह थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
5. का0 सुभाष सरोज, का0 विपिन कुमार थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी